TIMEXGROUP

Timex Group India Limited Unit No 303, 3rd Floor, Tower B, World Trade Tower (WTT), C-1, Sector-16, Noida – 201 301 Uttar Pradesh INDIA

CIN: L33301DL1988PLC033434

Tel.: +91 120 474 1300 Fax: +91 120 474 1440 Website: www.timexindia.com E-mail: feedback@timexindia.com

October 29, 2021

The Secretary BSE Ltd. P J Towers, Rotunda Bldg., Dalal Street, Fort Mumbai – 400 001

Scrip Code: 500414

Dear Sir,

Sub: Newspaper Publication of un-audited quarterly Financial Results

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed Copies of Newspaper Advertisement regarding un-audited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended on 30th September 2021 published on October 29, 2021 in Business Standard (English) in New Delhi and Mumbai edition and Business Standard (Hindi) in New Delhi edition.

You are requested to take the above on your records.

Thanking you, For Timex Group India Limited

Dhiraj Kumar Maggo

Vice President – Legal, HR and Company Secretary

Regd. Office: E-10, Lower Ground Floor, Lajpat Nagar-III, New Delhi-110024. Tel.: +91 11 410 21297



Government of Jammu & Kashmir (UT) OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PHE DIVISION BIJBEHARA

NOTICE INVITING TENDER

E-NIT No. 32 of 2021-22 ISSUED UNDER NO;PHB/:6757-77 Dated. 27-10-2021 E-NIT No. 32 of 2021-22 ISSUED UNDER NO;PHB/:b/3-/-/
For and on behalf of the LL Governor of UT of J&K e-tenders (Two cover System) are invited on item rate basis with maintenance period of from reputed and resourceful contractors // Firms/ companies/joint venture of repute in PWD or Equivalent in CPWD/Railways and other state. Governments for the following works, which should be uploaded on the Procurement web portal http://jklenders.gov.infor the subjected work(s) referred below to be received by the Superintending Engineer, Hydl. Circle, Ananinag and as per the details mentioned in this e-tender notification and to whom all the terms and conditions of detailed e-NIT // Finder Documents PWD Form No: -25 double are accepted. The detailed lender documents (Non-refundable/Non-Transferable) should be the shape of e-Challan or Treasury Challan/Receipt in favour Executive Engineer PHE Division Bijbehara.

S. No	Name of work	Amount	Earnest money	Cost of TD	Class of contract	Head of Account	Tender receiving authority
1	Const. and successful testing and commissioning of 0.70 MGD RSFP comprising of 0.70 MGD RSFP comprising of Clarifloculator, flash mixer, filter house, separate back wash tank of required capacity alongwith all electrical / mechanical components incld. tinal run for 06 months and DLP 9 months. It of pipe 250 mm dia RWM line, construction of Resettling tank, Construction of Intake chamber / Channel, Construction of Stuice chamber, Air valves for WSS Chittergul under NABARD.		Bid security form to be swom on affidavit duly notarized be attached with the bid	4000	AAY	NABARD	Superintending Engineer Hyd. Circle Anantnag
2	L/F of pipe network , Construction of cement concrete Blocks for raw water main , Construction of Steel Truss bridge , Construction of 2.30 lac gallons capacity SR for WSS Siligam Tanitraypora under (NRDWP)	324.12	Bid security form to be sworn on affidavit duly notarized be attached with the bid	4000	AAY	NRDWP	Superintending Engineer Hyd. Circle Anantnag

The Bidding documents consisting of eligibility criteria, specification, drawings, bill of quantities (B.O.Q) set of terms 8 conditions of contract and other details can be seen/ downloaded from the e-procurement Portal "http://iktenders.gov.in" as

S.	Description		Time		
No.	1	DD	MM	YYYY	
1	Publishing date of NIT	27	10	2021	10.00 AM
2	Download start date	27	10	2021	6.00PM
3	Bid submission start date	27	10	2021	6.00 PM
4	Bid submission end date	13	11	2021	4.00 PM.
5	Bid opening date (Technical Cover)	15	11	2021	10.00 AM

For and on behalf of the Lt. Governor UT of Jammu & Kashmir


JSD (PHE) Div, Bijbehar DIPK-11450/21

(erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited) CIN: L65110TN2014PLC097792 red Office: - KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai- 600031.

Name of Section Outstanding

IDFC First Bank Limited

Tel: +91 44 4564 4000 | Fax: +91 44 4564 4022



CIN: L33301DL1988PLC033434

Regd. Office: E-10, Lower Ground Floor, Lajpat Nagar- III, New Delhi-110024
Tel: 91-120-4741300, Email: investor.relations@timex.com, Website: www.timexindia.com

Extract of Un-audited Financial Results for the quarter and half year ended 30 September, 2021

Particulars	Quarter ended 30 September 2021 (un-audited)	Half Year ended 30 September 2021 (un-audited)	Quarter ended 30 September 2020 (un-audited)	Half Year ended 30 September 2020 (un-audited)
Total income from operations	8799	12005	2984	3665
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1135	607	-357	-1599
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1135	607	-357	-1599
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1135	607	-357	-1599
Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	1142	604	-352	-1604
Equity Share Capital	1010	1010	1010	1010
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year	-		-	-
Earnings Per Share (of Re. 1 each) Basic & Diluted*	0.98	0.25	-0.57	-2.01

* Not Annualised

Place : Noida Date : 27 October, 2021

IDFC FIRST

205

Ottotes:
1. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors in its meeting held on October 27, 2021.

The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the guarter and half year ended 30 September, 2021 The full format of the Financial Results for the quarter and half year ended 30 September, 2021 are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on Company website (www.timexindia.com)

For and on behalf of the Board of Directors

Sharmila Sahai Managing Director DIN: 00893750

RBL BANK LIMITED

RBLBANK Administrative Office: 1st Lane, Shahpuri, Kolhapur-416001
Regional Operating Center: 1st Floor, Building No 1, Modi Mills Compound,
Okhla Industrial Estate, Phase – 3, New Delhi – 110020. SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of RBL Bank Ltd. under Securitization and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (ssued demand notice calling upon Borrower/Guarantor(s)) Mortgagor(s) to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from receipt of the said notice.

The borrower/Guarantor(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Guarantor(s)/ Mortgagor and the public in general that the undersigned being the Authorized Officer of the RBL Bank Ltd. has taken SYMBOLIC POSSESSION of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under sub-section (4) of the section 13 of the said Act read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Name and Address of the Borrower, Co-Borrower/Guarantors/Mortgagor		Date of	Amount Due in Rs.	Date of possession (Symbolic)
HOUSE G.P.O, JAIPUR, RAJASTHAN-302001. ALSO AT: PLOT NO. J-11 (NORTH-WEST PART)	MARG, C- SCHEME- JAIPUR		Rs. 83, 08,026.63 (Rupees Eighly three lakhs Eight thousand Twenty six and Paisa Sixty Three only) logether with interest at contractual rate, (till complete payment) and incidental expenses thereon.	25-10-2021

dealings with the property will be subject to the charge of the RBL Bank Ltd. Date: 25/10/2021 Place: JAIPUR

Capital First Limited, amaignmated with INFC bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited) ine loans of the below-mentioned borrowers and oc-borrowers have been secured by the mortgage of their respective properties. As they have failed to adhere to the terms and conditions of the respective loan agreements and had become irregular, their loan were classified as NPA as per the RBI guidelines. Amounts due by them to IDFC FIRST Bank Limited (arrstwhile Capital First Limited) are mentioned as per respective notices issued more particularly described in the following table and further interest on the said amounts shall also be applicable and the same will be charged as per contractual rate with effect from their respective dates.

Notice under Section 13 (2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 The following borrowers and co-borrowers availed the below mentioned secured loans from IDFC FIRST Bank Limited (erstwhlle Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited) The loans of

Sr No.		Type of Loan	borrowers and co-borrowers	13 (2) Notice Date	amount as per Section 13 (2) Notice	Property Address
1	15786074	HOME LOAN	1. YOGESH SINGH RAWAT 2. NEELAM PRITHVISINGH RAWAT	16-10-2021	11,37,624.26/-	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF FLAT NO.FF-01, FIRST FLOOR (RRS- FRONT SIDE WITHOUT ROOF RIGHTS, PLOT NO. A61, SITUATED AT GANGA VIHAR. VILLAGE-SADULLABAD, GHAZIABAD, U.P201102, FLAT ADMEASURING 46.45 SQ. MTR. AND THE PLOT IS BOUNDED BY AS FOLLOWING: NORTH: PLOT NO. A-62 SOUTH: PLOT NO. A-62 SOUTH: PLOT NO. A-63 FLOOR SOUTH: PLOT NO. A-64 SOUTH: PLOT NO. A-65 PLOT

You are hereby called upon to pay the amounts to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amaigamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited aper the details shown in the above table with contracted rate of interest thereupon from their respective dates and other costs, charges etc. within 60 days from the date of this publication, failing which the undersigned shall be constrained to initiate proceedings, under Section 13 (4) and section 14 of the SARFAESI Act, against the mortgaged properties mentioned hereinabove to realize the amount due to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited). Further you are prohibited under Section 13 (13) of the said Act from transferring the said secured assets either by way of sale/lease or otherwise.

Authorized Officer
IDFC FIRST Bank Limited
(erstwhile Capital First Limited, amalgamated with
IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited) Date: 29.10.2021 Place: DELHI NCR

Business Standard



HR CONCLAVE 2021

T.S School of Management organised HR The second-panel discussion was based on Conclave 2021 on the theme 'HR & 'Digital Disruptions and HR' wherein the Disruptive Development during Pandemic' on nuances of digital explosion were shared by panellists Ms Priyanka Srivastava AGM HR –

The Inaugural event saw the illustrious presence of Shri Arpit Chadha, Vice Chairman, I.T.S - The Education Group who briefed upon evolving facets of the HR function in the current era, Shri Surinder Sood, Director PR I.T.S - The Education Group welcomed all, HR Stalwarts Mr Ashutosh Anshu, CHRO Hitachi graced as Chief Guest and Mr Subir Verma, Sr. Director and Head HR & IR Tata Power as Guest

First-panel session on the theme 'Work from Home – A New Paradigm' saw infusion of best thought processes in industries put forth by Mr Debargah Deb - Head HR (North) Dabur: Ms Nidhi Jain - MD, Apex Pvt. Ltd.; Ms Richa Sahay - Head HR Human Circle; Ms Sincy ICF-ACC Coach Group Trainer (ISABS) and the session was moderated by Mr Agniwesh Thakur – Lead HCM at Accenture.



CHN Industrial: Mr Shivshant Kumar.

Sr. Director & Head HRIS – Jubilant Pharmova; Mr Devmani Pandey, Head HR Operations –

Dalmia Cements & Hippo Stores; Mr Manoj Kumar AVP & Head HR – Indiannica Learning

and moderated by Mr Neeraj Narang, Director

54TH CONVOCATION OF IIFT

2021, at its campus in New Delhi, Shri Pivush Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distributions and Textiles, Government of India was the Chief Guest, and Shri B.V.R. Subrahmanyam, Chancellor, partment of IIFT and Secretary, Department of Commerce, Government of India, presided over the function. Degrees were conferred to more than 500 students from different batches of IIFT's flagship programme MBA in International Business. The toppers from each batch were awarded gold, silver and bronze medals in recognition of their accomplishments. Apart from this, graduating students of the long term programmes i.e. Masters in Economics, PhD in Management and Economics and Executive Programmes were also awarded their degrees and diplomas.

Delivering the convocation address, Shri Piyush Goyal, Honorable Minister of Commerce & Industry applauded the efforts spearheaded by the honourable Prime Minister in administering 100 crores COVID-19 vaccine doses. appreciated the strong contribution of IIFT in

The Indian Institute of Foreign Trade (IIFT) promoting International trade and economics held its 54th Convocation on 22nd October related education and mentioned that IIFT has become a national asset in this highly globalized world. Congratulating graduating students and wishing them the very best for their future, the Minister exhorted them to be lifelong learners and advised them to keep abreast of the latest developments in Foreign Trade and changing landscape of the glob business atmosphere. honourable Minister also complimented the efforts of the business education, as well as in nurturing its Economics department which is now ranked 6th in interr REPEC listing. internationally recognized IDEAS



Notice under section 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (The Act) Particulars of Mortgaged property/ (les) (B) LAT NUMBER F.F-1, M.I.G, FIRST Name of Borrower(s) (A) Outstandin Amount (Rs.) (D) LOAN ACCOUNT Rs. 21,44,389.48 NO. HHLVAS00359694 (Rupees Twenty One Laki FLOOR, PLOT NUMBER F-38, "S.L.F. VED VIHAR", HADBAST VILLAGE LONI, PARGANA AND TEHSIL LONI, Forty Four Thousand 1. ASHOK KUMAR MAHARANA 2. JAHNABI SUTAR Three Hundred Eighty Nine And Palse Forty DISTRICT GHAZIABAD-201001, Eight Only) as on 15.09.2021

ENTIRE FIRST FLOOR, PLOT NO. III-F / 368, SECTOR-III F, VAISHALI, LOAN ACCOUNT 28.06.2021 Rs. 14,12,407.62/-NO. HHLVAS00256007 (Rupees Fourteen Lakh 1. KUMAR DEVENDRA GHAZIABAD, UTTAR Twelve Thousand Four PRADESH - 200111 . SARITA DEVI Hundred Seven and Pa Sixty Two Only) as on LOAN ACCOUNT JNIT NO. 151, UPPER GROUND Rs. 2100342.41/-17.09.2021 NO. HLAPNOI00270908 FLOOR, BLOCK-SB, JAIPURIA (Rupees Twenty One 1. VINOD KUMAR SUNRISE PLAZA, PLOT NO. 12A Lakhs Three Hundred . PREETI AHINSA KHAND-1, GHAZIABAD Forty Two and Paise UTTAR PRADESH - 201009 Forty One Only) as on 17-Sep-21 Rs. 4142627.87/-LOAN ACCOUNT FLAT NO-171, DDA LIG FLAT, NO. HHLNOI00455432 BLOCK-A1, LAWRENCE ROAD, (Rupees Forty One Lakhs 1. ANIL KUMAR KESHAV PURAM., NEW DELHI, Forty Two Thousand Six DELHI - 110035 ndred Twenty Seven 2. SEEMA RAN 3. RENU KHERA and Paise Eighty Seven Only) as on 15-Sep-21 Rs. 1724101.63/-FLAT NO. UG 3, UPPER GROUND NO. HHLNOI00285096 FLOOR, REAR SIDE, PLOT NO. F 24, (Rupees Seventeen Lakhs

I. RAJESH KUMAR GHAZIABAD, UTTAR Twenty Four Thousa 2. ASHA PRADESH - 201102 One Hundred One and Paise Sixty Three Only) as on 15-Sep-21 FLAT NO. UGF 3, BACK SIDE RHS, 10.09.2021 Rs. 1640087.41/-LOAN ACCOUNT LIG, PLOT NO B1/48, DLF DLISHAD EXTENSION II, GHAZIABAD, UTTAR (Rupees Sixteen Lakhs Forty Thousand Elghty NO. HHLNOD00297467 1. MADHU 2. CHAIN PAL PRADESH - 201005 Seven and Palse Forty 3. ASHOK KUMAR One Only) as on 4. RAM AVTAR GARG 10-Sep-21 LOAN ACCOUNT PLOT NO. 294, KHASRA NO. 228 KA, 26.06.2021 Rs. 19.91,833.74/-MAUZA PALIKHERA, INSIDE NARSI VIHAR CITY COLONY, MATHURA-NO. HODMAT00410699 (Rupees Nineteen Lakh Ninety One Thousand 1. USHA JAIN Fight Hundred Thirty 2. SUNIT JAIN 281001, UTTAR PRADESH Three and Palse Se Four Only) as on 26.06.2021 Rs. 15,19,055.12/-RESIDENTIAL PROPERTY PART OF LOAN ACCOUNT NO. HLAPMAT00313803 PLOT NO. 40, KHASRA NO. 3759 & (Rupees Fifteen Lakh

Nineteen Thousand Fifty 1. MOHD WASIM CHAK NO. 81, SITUATED AT Five and Paise Twelve 3. MOHD MOSIN MATHURA BANGAR, NEAR KANKALI Only) as on 26.06.2021 MANDIR, BHUTESHWAR MATHURA- 281001, UTTAR PRADESH LOAN ACCOUNT PLOT NO 294. MAUZA PALIKHEDA. 28.06.2021 Rs. 1322031.11/-ANDRRON NARSI VIHAR COLONY, NO.HHLMAT00176229 1. SUNIT JAIN MATHURA & TESH & DISTT, Twenty Two Thousand MATHURA UTTAR Thirty One and Palse 2. KIRTI JAIN Eleven Only) as on 28.06.2021 Rs. 14,40,862.33/-LOAN ACCOUNT PLOT NO. 10. RADHA ENCLAVE 26.06.2021 NO. HHLMAT00425834 COLONY, MAUJA MAHOLI, KHASRA (Rupees Fourteen Lakh: 1. MANOJ KUMAR NO.308(OLD), KHASRA NO. 234 Forty Thousand Eight (NEW), TEHSIL AND DISTRICT Hundred Sixty Two and VANDNA MATHURA, MATHURA Paise Thirty Three Only) UTTAR PRADESH - 281001 as on 26.06.2021

Due to persistent default in repayment of the Loan amount on the part of the Borrower(s) the above said loan account has bee ming Asset (as on date in Column C) within the guidelines relating to assets classification ssued by Regulating Authority Consequently, notices under Sec. 13(2) of the Activere also issued to each of the borrower

In view of the above, the Company hereby calls upon the above named Borrower(s) to discharge in full his/their liabilities toward: the Company by making the payment of the entire outstanding dues indicated in Column D above including up to date interest costs, and charges within 60 days from the date of publication of this notice, failing which, the Company shall be entitled to take possession of the Mortgaged Property mentioned in Column B above and shall also take such other actions as is available to the

Please note that in terms of provisions of sub-Section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act, "A borrower can tender the entir rease increments in terms or provisions or suc-section (a) or section 13 or the SARPAESI ACt, A borrower can tender the entire amount of oútstanding dues together with all costs, charges and expenses incurred by the Secured Credition only till the date or publication of the notice for sale of the secured asset(s) by public auction, by inviting quotations, tender from public or by private treaty. Further it may also be noted that in case Borrower falls to redeem the secured asset within aforesaid legally prescribed time treaty.

frame, Borrower may not be entitled to redeem the property. In terms of provision of sub-Section (13) of Section 13 of the SARFAESIAct, you are hereby prohibited from transferring, either b way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of his business) any of the secured assets referred to in the , lease or otherwise (other than in the ordination of secured creditor.)

Place: GHAZIABAD/DELHI/MATHURA

For Indiabulis Housing Finance Ltd.

Authorized Officer

Purijab & Sind Bank
Branch office - Neemrana, S-31, RilCO Complex, Behind Hotel Neemrana, Palace, Neemrana, District: Alver-901708
Photo: 01494-246112 — mail: n1093@psb.co.in
POSSESSION NOTICE

PURSES* SIND IN 10 TIC **

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the Punjab & Sind Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 read with Rules of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, Issued a demand notice uis 13 (2) dated 28.07.2021, calling upon the BorrowerGuarantors- (1) Mr. Rohtash Yadav Sio Sultan Singh, Al Address:-House No. 47, Village Bichpurf, Pegil, Neemrana, Alwar-301708 (Rajasthan), BC, Address:-House No. 437, Danna Bhagola wall, Blywad Chounhan, Tehsli-Mandawar, Alwar-Riajasthan), BjSharda Cilnic, Bichpurf Road, Molaherf, Alwar-301705 (Rajasthan), GRajasthan), Ol Mrs. Santosh Devi Address:-House No. 437, Danna Bhagola wall, Blywad Chounhan, Alwar-301708 (Rajasthan), Deva Address:-House No. 437, Village Bichpurf, Pepil, Neemran, Alwar-301708 (Rajasthan)) repay the amount memboned in the notice being Rs.1,68,550.03 (Rupess One Lacs Eighty Eight Thousand Fire Hundre Fifty Eight And Palas Three Only) as on 31.03.202 (Willing Oddys from the date of notice together with further interest, incidental expenses, costs, charges etc. till date of payment and for realization.

cate or notice together with number innerest, incidential expenses, costs, charges stic. We date of payment and of ortestization.

And ortestization.

A

Patta No. 22, Situated at Village Bichpuri, Neemrana, Alvar-301705 (Rajasthan) in the name of Mr. Rohtash Yadaw Xio Sutlan Singh, Measuring-128.33 Sq. Yard Bounded as under. - North: House of Dayaram, South, Rasta, East: Aram Rasta, West: Plotof Maha Singh
Date: 26.10.2021 Place: Neemrana Authorised Officer, Punjab & Sind Bank

Form No. 5 DEBTS RECOVERY TRIBUNAL

IDFC Bank Ltd.

VERSUS

Ram Prasad

To 1. Ram Prasad, 340 Sain Bihar, Ghaziabad, Ultar Pradesh-201001

2. Anil Kumar, SD-83 Shastri Nagar, Ghaziabad, Ultar Pradesh-201001

2. Anil Kumar, SD-83 Shastri Nagar, Ghaziabad, Ultar Pradesh-201001

1. In he above noted Application, you are required to file reply in Paper Book form in Two sets along with documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent affective form of the same on the Applicant or his conselfutly authorized agent affer publication of the summons, and thereafler to appear before the Tribunal on 16/12/2021 at 10:30 am failing which the application shall be heard and decided invoursabence. Registrar, Debt Recovery Tribunal, Lucknow

Prlyanka SinghDefendant
To. 1. Prlyanka Singh D/o Ashok Kumar, C-1/54 DL Sahihabad S-1 Ghaziabad-201005
110039 Also At: Prlyanka Singh D/o Ashok Kumar Harshi Polymers Plot No 37 Pocket - SecSawana Industrial Area New Delhi - 110039
Sawana Industrial Area New Delhi - 110039
along with documents and affaivals (if any), personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the Applicant or his counsel/duly authorized agent or the source (Iddy authorized agent or the Tribunal on 16/12/2021 at 10:30 am failing which the application shall be heard and decided Registrar, Debt Recovery Tribunal, Lucknow

A property Accessed (A Govt. of India Undertakin	JTM Mall, Jagatpura, J		CORRIGENDUM
The Sale Notice published in	this daily on 23.10.2021 for below m	entioned loan	account may be read as follow:
Property No. 1	Property No. 3		Property No. 4
Borrower Name- M/s Uday Constructions Co.	Borrower Name- M/s Rajasthan Handloom Corporation	Borrowei Pharmaceu	
Name of the Borrower is: Ws Uday Constructions Co. (Partnership Firm) Total area admeasuring is 23644.68 Sq.mts instead	Amount of Secured Debt: Rs. 64,72,327.28 has become due on 31.01.2019 plus interest alongwith charges and expenses instead of Rs. 1,06.89,023/- has become due	Amount of has become interest alor	Imeasuring is 110.954 Sq. mbrs 93.86 Sq.ft. Secured Debt: Rs. 35,54,034 le due on 22.11.2018 plus gwith charges and expenses s. 42,62,416/- has become due

ठाणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग रुम नं.214, दुसरा मजला, जिल्हाधिकारी कार्यालय इमारत, ठाणे–400 601 Under the Consumer Protection Act, 1986 Consumer Case No. 123/2019

SMT. MANGALA SUBHASH WARKE . .. Petitioner/Complainant Versus
1. HDFC STANDARD LIFE

1, 2, HARI GOPALPROPERTIES PVT LTD विल्हापिकारी कार्यात्व 301,AMBA TOWER, DCCHOWK, SECTOR 9, ROHINI, DELHI DELHI

जाहीर प्रकटन

वर नमुद तकारदार यांनी विरुद्ध पक्ष यांचे विरुद्ध ग्राहक संरक्षण कायद्यान्वये वर नमुद तकार दाखल केलेली आहे. यातील विरुद्ध पक्ष यांना नोटीस पाठविली असता ते स्विकारत नाहीत/ पत्ता बदल झालयामुळे मिळुन येत नाही, म्हणून तक्रारदारांनी केलेल्या विनंतीनुसार या जाहिः नोटीस द्वारे आपणास कळविण्यात येते की, विरुद्ध पक्ष यांनी वर नमुद या आयोगाच्या पत्यावः दि. 17 Nov 2021 रोजी सकाळी 10.30 वाजता वेळेत स्वतः अगर वकील/प्राधिकृत प्रतिनिधि मार्फत उपस्थित राहुन आपला लेखी जबाब, पुरावा व प्रतिज्ञालेख दाखल करावेत. जर विरुद्ध पक्षांनी याकामी कसूर केल्यास मा आयोगाद्वारे एकतर्फा आदेश पारित करणेत येवुन पुढील कार्यवाही करणेत येईल. याची दखल घ्यावी. मा.जिल्हा ग्राहक तकार निवारण आयोग, ठाणे यांचे आदेशानुसार.ठिकाण: ठाणे प्रबंधक

(seal) देनांक: 6 September 2021 जिल्हा ग्राहक तकार निवारण आयोग, ठाणे

> APPENDIX IV [See rule 8 (1)] POSSESSION NOTICE

The undersigned being the Authorized Officer of INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) under the Securilisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 23.06.2021 calling upon the Borrower(s) ARUN KUMAR GUPTA, LAXMI DEVI W/O SANJAY GUPTA AND HANSRAJ GUPTA mentioned in the Notice being Rs.1,08,07,379.571-(Rupees One Crore Eight Lakh Seven Thousand Nine Hundred Seventy Nine and Paisa Sixty Seven Only) against Loan Account No. HHLLAJ00351273 as on 09,06.2021 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

The Borrower (s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower (s) and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 25.10.2021

The Borrower (s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED for an amount the charge of the INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED for an art of Rs.1,08,07,979.67/- (Rupees One Crore Eight Lakh Seven Thousand Hundred Seventy Nine and Palsa Sixty Seven Only) as on 09.06.2021 interest thereon nterest thereon.

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the secured

assets. DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY ALL THAT PIECES OR PARCELS OF LAND AS UNDER TOGETHER WITH ALL THE STRUCTURES, BUILDINGS, FURNITURE, FIXTURES, FITTINGS, STANDING AND/ OR PLANT AND MACHINERY INSTALLED/ TO BE CONSTRUCTED/ TO BE CONSTRUCTED THEREON AND ALL THE PRESENT AND FUTURE TITLE, INTERESTS AND/ OR RIGHTS

OF THE BORROWER THEREIN ALL THAT PIECE AND PARCEL OF ENTIRE BASEMENT, COVERED ARE MEASURING 106 SQ. MTRS., AND ENTIRE SECOND FLOOR (WITHOUT TERRACE/ ROOF RIGHTS), COVERED AREA MEASURING 126 SQ. MTRS OF FREEHOLD PLOT OF LAND BEARING NO.36. IN BLOCK 'C', EACH FLOOR AREA MEASURING 227 SQ. YDS. (APPROX.), SITUATED IN THE

RESIDENTIAL COLONY KNOWN AS NEW DELHI SOUTH EXTENSION RESIDENTIAL COLONY KNOWN AS NEW DELIT SOUTH EXTENSION, PART- I, NEW DELIT 19049, IN THE REVENUE ESTATE OF VILLAGE MUBARAK PUR KOTLA IN RING ROAD, WITHIN THE LIMITS OF MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI, ALONGWITH COMMON SMALL TWO

MONICIPAL CORPORATION OF DELTH, ALCOHOM TO SUBMERSIBLE ON MCD
WATER CONNECTION/ METER, COMMON SUBMERSIBLE PUMP,
COMMON LIFT ALONGWITH PROPORTIONATE UNDIVIDED INDIVISIBLE AND IMPARTIBLE OWNERSHIP IN THE SAID PROPERTY WITH ALL RIGHT, TITLE, INTEREST, EASEMENTS PRIVILEGES AND APPURTENANCES ATTACHED THERETO WITH ALL FITTINGS AND FIXTURES CONNECTION STRUCTURESTANDINGTHEREON, I.E., COMMON STAIRCASEAPPROACHTO OVERHEAD WATER TANK AND WITH ALL RIGHTS IN COMMON FACILITIES AND AMENITIES PROVIDED THEREIN IN THE SAID BUILDING CONSTRUCTED ON THE PLOT BOUNDED AS UNDER

:-PLOT NO. C- 37` :-OTHER LAND WEST SOUTH :-PLOT NO. C- 35 :-ROAD

INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED

Date: 25.10.2021 Place: NEW DELH

Authorized Office

MUKTA ARTS LIMITED

CIN:L92110MH1982PLC028180 Regd. Office: Mukla House, Behind istling Woods Institute, Filmcity Comp Goregaon (East), Mumbai-400 065. Tel. No. (022) 33649400; Fax No. (022) 33649401.

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements)Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of Mukta Arts Limited will be held on Friday, 12th November, 2021 at 12 noon through Video Conferencing VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) to consider, approve and take on record the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and half year ended 30th September, 2021.

The said information is also available on the Company's website at www.muktaarts.com as well as on the website of the stock exchanges at www.bseindia.com &

By the Order of the Board of Director For Mukta Arts Limited

Place: Mumbai Monika Shal Date : 28.10.2021 Company Secretary PUBLIC NOTICE

Take Note That the Original nent of Agreement for Sale 10/05/1994 Registered in the Office of Sub-Registrar a Palghar on 11/05/1994 Under Document Sr. No. 451 in respect of the Flat No. 101 on FIRST Floo idmeasuring Built Up area of 445 cq. Fts. (Carpet Area 31.80 Sq. atrs.) in the Building Known as SAI JYOT", Lying and Being on N.A. Plot of Land bearing Plot No 13 & 14 of Survey No. 102/1/1P 102/3, 102/4P, 103/2 & 106/5 situated at Village: PALGHAR, Tal & Dist: Palghar, executed betwee M/s. ARTI ENTERPRISES & Mr M/s. ARTI ENTERPRISES & Mr. SANKHE RAVINDRA GOVIND was lost by my client. My client had filed missing complaint in Palghar Police Station (Missing Complaint No. 653/2021 Dt. 27/10/2021). All persons are hereby cautioned no to deal or carry out any transaction with anyone on the basis of the above said missing document Anyone doing so shall do it at his ease note.

Advocate Mrs. Amita K. Patil Office: Shop No. 6, Ground Floor The Edge, B/h. Prakash Talkies, Mahim Road, Palghar, Tal & Dist Palghar 401404.Cell: 922693325 Place: Mumbai, Date: 28/10/202



GRASIM INDUSTRIES LIMITED

Clik: L17124MP1947PLC000410

Registered Office: P.O. Birlagram, Nagda - 456 331, Dist. Ujjain,Madhya Pradesh, India; Tel. No.: +91 7366-246766

Corporate Office: Aditya Birla Centre, "X" Wing, 2" Floor, S.K. Ahire Marg, Worlf, Mumbal - 400 030, Maharashtra, India;

Tel. No.: +91 22 6652 5000 / 2499 5000; Fax No.: + 91 22 6652 5114 / 2499 5114

E-mail: grasim.secretarial@adityabirla.com; Website: www.grasim.com

Pursuant to regulation 29 and other relevant regulations of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of Grasim Industries Limited will be held on Thursday, 11th November 2021, inter-alia, to consider and approve the unaudited finance sults of the Company for the quarter and half year ended 30th September 2021.

In terms of the Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report Trading by Designated Persons in Listed or Proposed to be Listed Securities of Grasim Industries Limited, the trading window for dealing in the securities of the Company will continue to remain closed from 1st October 2021 to 13th November 2021 (both days inclusive).

This Notice is also available on the following websites:www.grasim.com; www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Place: Mumbai Date : 28th October 2021

Sailesh Daga

For Grasim Industries Limite

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given under instructions and on behalf of my client Mrs. Roshni Radhakrishnan (alias Roshni Jayakumar) D/o Late Mr. T. T. Radhakrishnan, sole D/O Late Mr. T. T. Radhakrishnan, sole nominee of her deceased father in respect of his Fiat No.2, on Ground Floor, "SUNDEW, Angelore CHS Ltd., Pestom Sagar Road, Chembur, Mumbai 400 089and was holding its Duplicate Share Certificate No. 162 for 5 Nos. of Rs. 50/- each (issued in lieu of Lost Original Share Certificate No. 109 Dt. 20/12/72), My client states that she has lost /misolaced. My client states that she has lost /misplace the said Duplicate Share Certificate and th me is not traceable.

All persons/authorities having any claim gainst for in aforesaid lost / misplaced/no raceable Share Certificate are required to nake the same known in writing to me with documentary evidence at my under mentioner publication, failing which it shall be presume that there is no claim from any persons authorities over the same and society sha authorities over the same and society sha be free to issue another share certificate in name of my client i.e. sole nominee of sail deceased. If any claims received after the said 15 days period hereof, the same sha be considered as waived, surrendered abandoned.

ABHISHEK K. PAREKH Advocate High Court Shop No. 15 & 16, Janta Market, Near Chembur Rly. Station, Chembur, Mumbai – 400 071.

FORM 'Z' (See sub -rul (11(d-1) of rule 107)

POSSESSION NOTICE FOR IMMOVABLE PROPERTY Whereas the undersigned being the Recovery Officer of the THE HINDUSTHAN CO-OP BANK LTD., Mumbai under the Maharashtr o-operative Societies Rules, 1961 issued a Demand Notice Dated 18.07.2018 calling upon the Judgement Debtors Shri, Shvam Subhodh Mandal, And his sureties Shri. Lalbahadur Ghoghan Kamati, And Smt. Jancy Job to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 1497614.00 (Rupee Fourteen Lakhs Ninety Seven Thousand Six Hundred Fourteen Only) on or before 15 Days from the receipt of the said notice and the Judgement Debtor having failed to repay the amount, the undersigned has issued a notice for attachmen dated 01.09.2021 and attached the property described herein below The Judgement Debtor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Judgement Debtor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property/Attached the property described hereinbelow in exercise of powers conferred on him/her under rule 107[11(d-1)] of the Maharashtra Co-operative Societies Rules, 1961 on this 28th day of September, the year 2021 The Judgement Debtor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the roperty will be subject to the charge of the THE HINDUSTHAN CO-OP BANK LTD., Mumbai - 22. For an amount Rs. 1539514/-(Rupees Fifteen Lakhs Thirty Nine Thousand Five Hundred ourteen Only) and intrest thereon

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

All that part and parcel of the property consisting of Shree Samarth Owners Association, LIG II Type Apartment, Room No. C/30, Plot No. 2E/3, C&D. Sector No. 2E, Kalamboli, Within the Tashil: Panvel and District:- Raigad, State:- Maharashtra

Date: 28.09.2021

(Shri. P. S. Karande) Recovery Officer,

Seal Place: - Kalamboli, Navi Mumbai The Hindusthan Co-op Bank Ltd., Mumbai - 22

FORM 'Z' (See sub -rul (11(d-1) of rule 107)

POSSESSION NOTICE FOR IMMOVABLE PROPERTY Whereas the undersigned being the Recovery Officer of the THE HINDUSTHAN CO-OP BANK LTD., Mumbai under the Maharashtra ive Societies Rules, 1961 issued a Demand Notice Dated 15.09.2018 calling upon the Judgement Debtors M/s. Doaba Cargo Movers. (Prop. Smt. Jasbirkaur Jasvindersingh Banwait) And his sureties Shri. Ranjitsingh Bikramsingh Saini, And Smt Jaskiratkaur Jasvinder Saini to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 73102376.00 (Rupee Seven Crore thirty One Lac Two Thousand Three Hundred Seventy Six Only) & Rs. 9413924.00 (Rupee Ninety Four Lac Thirteen Thousand Nine Hundred Twenty Four Only) on or before 15 Days from the receipt of the said notice and the Judgement Debtor having failed to repay the amount, the undersigned has issued a notice for attachment dated 13.08.2021 and

attached the property described herein below.

The Judgement Debtor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Judgement Debtor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property/Attached the property described hereinbelow in exercise of powers conferred or him/her under rule 107[11(d-1)] of the Maharashtra Co-operative Societies Rules, 1961 on this 24th day of September, the year 2021 The Judgement Debtor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of the THE HINDUSTHAN CO-OP BANK LTD., Mumbai - 22, For an amount Rs. 11,76,06,908,40 (Rupees Eleven Crore Seventy Six Lac Six Thousand Nin-Hundred Eigth & Forty Paise Only) & Rs. 1,41,32,872.00 (Rupee One Crore Forty One Lac Thirty Two Thousand Eight Hundre Seventy Two Only) as of 20.12.2018 and further intrest thereon.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

All that part and parcel of the property consisting of 1) Sub Plot No 3B, Cement Merchants Premises Co-op Society Ltd., CMPCS Complex, Near Readymix Plans, Kalamboli Warehousin Corporation, Kalamboli, Tal – Panvel, Dist – Raigad, State: Maharashtra. Plot Area Admeasuring 1167.30 Sq. Mtrs. (12560 Sq. Ft) Existing Constructed Area 583.65 Sq. Mtrs. (6280 Sq. Ft) 2) Sub Plot No. 4A, Cement Merchants Premises Co-op Society Ltd., CMPCS Complex, Near Readymix Plans, Kalambol Warehousing Corporation, Kalamboli, Tal – Panvel, Dist – Raigad State: - Maharashtra.

Plot Area Admeasuring 696.60 Sq. Mtrs. (7495.33 Sq. Ft.) Existing onstructed area 348.30 Sq. Mtrs. (3747.71 Sq. Ft) Sd/-

Date: 24.09.2021 Place: - Kalamboli

Seal

(Shri. P. S. Karande) boli Recovery Officer, The Hindusthan Co-op Bank Ltd., Mumbai – 22.

BHAGWATI AUTOCAST LIMITED

(CIN: L27100GJ1981PLC004718)

Regd. Office: Survey No. 816, (New Survey No. 259), Village: Rajoda, Nr. Bavla, Dist. Ahmedabad-382 220. Ph. +91 2714-232283/232983/232066, E-mail: cs@bhagwati.com

Extract of Unaudited financial results for the

[Rs. in lakhs except EPS					
,		Quarter Ended	Half Year Ended	Quarter Ended	
Sr. No.	Particulars	30.09.2021 (Unaudited)	30.09.2021 (Unaudited)	30.09.2020 (Unaudited)	
1	Total Income from operations	3463.41	6742.30	2753.73	
2	Net Profit / (Loss) for the period				
	(before tax and exceptional items)	77.50	128.88	40.08	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax			1	
	(after exceptional items)	77.50	128.88	40.08	
4	Net Profit for the period after tax (after exceptional items)	59.33	96.40	50.55	
5	Total comprehensive income for the period		0.00-4-1711	1000000001	
	[comprising profit for the period (after tax) and	1		1	
	other comprehensive income (after tax))	62.44	102.62	50.30	
6	Equity share capital (Face value per share Rs. 10/- each)	288.07	288.07	288.07	
7	Earnings per share (before and after extraordinary items)				
	(of Rs. 10/- each) Basic & Diluted	2.06	3 35	1.75	

NOTES:

(1) The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on October 28, 2021. The limited review as requirer under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been completed by the statutory auditors of the Company.

completed by the staluturg auditors of the Company.

(2) The financial results for the Quarter and Half year ended September 30, 2021 have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.

(3) The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter and Half year ended 30th September, 2021, filed with the Stock Exchanges, under the Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on the Company's website www.bhagwatl.com

By Order of the Board of Director

Date: 28.10.2021

(Dr. P. N. Bhagwati) Chairman & Joint Managing Director DIN: 00096799

Timex Group India Limited

CIN: L33301DL1988PLC033434

Regd. Office: E-10, Lower Ground Floor, Lajpat Nagar-III, New Delhi-110024
Tel: 91-120-4741300, Email: investor.relations@timex.com, Website: www.timexindia.com

Extract of Un-audited Financial Results for the quarter and half year ended 30 September, 2021

(Rs. in lakhs) Half Year ended lalf Year ended 30 Quarter ended 30 September 2021 arter ended 30 **Particulars** Total income from operations 12005 2984 3665 -357 -1599 Net Profit / (Loss) for the period before tax 1135 607 -357 -1599 (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 1135 607 -357 -1599 Total Comprehensive Income for the period 1142 604 -352 -1604 [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]
Equity Share Capital 1010 1010 1010 1010 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as hown in the Audited Balance Sheet of previous Earnings Per Share (of Re. 1 each) Basic & Diluted

* Not Annualised

1. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors in its eeting held on October 27, 2021.

2. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and half year ended 30 September, 202 filed with the BSE Ltd. under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter and half year ended 30 September, 2021 are available on the Stock Exchange website (www.biseindia.com) and on Company website (www.timexindia.com)

For and on behalf of the Board of Directors

Timex Group India Limited Sharmila Sahai Managing Director DIN: 00893750

Place: Noida Date: 27 October, 2021

© kotak°

KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED

: 4th Flr. 166/16, CST Ro

Krishas Santacurz (East), Mumbai-400 098 (MH):

POSSESSION NOTICE (FOR IM MOVABLE PROPERTY)

(As per Appendix IV read with Rule 8 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

WHEREAS, the undersigned being the Authorised Officer of Kotak Mahindra Bank Limited a banking company within the meaning of the Banking Regulation Act, 1949 having its Registered Office at : 27 BKC, C-27, G-Block, Bandra Kural Complex, Bandra (East), Mumbai-400 Office at : Admas Plaza, 4* Hoor, 166/16, CST Road, Kolivery Village, Kunchi Kurve Nagar, Kear Hotel Hare Krishna, Santacurz (East), Mumbai-400 098 under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated mentioned below under Section 13(2) of the said Act calling upon you being the Borrowers / Courantons (Names and Addresses Mentioned Below) to repay the amount mentioned in the said notice and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the provers remoted press helpow and to the multic borrowers mentioned herein below having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers mentioned herein below and to the public in general that the undersigned has TARE-MOSSESSION of the property described herein below in exercise of powers conferred on me under sub-section (4) of Section 13 of the Act read with faule 8 of the Security Interest (Enforcement) falley, 2002. The borrowers mentioned here in above in particular Mahindra Bank Limited having Branch Office at: Admas Plaza, 4º Floor, 166/16, CST Road, Kolivery Viillage, Kunchi Kurve Nagar, Near Hotel Hare Krishna, Santacurz (East), Mumbai-400 098 for a manunt as mentioned herein under and interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

		Date of Possession	Description of Immovable
Sr. Name of Customer Borrower(s) / Co-B No. & Guarantor(s)		Date of Demand Notice U/s. 13(2) read with rule 9 of SARFAESI Act Along with Amt. in ₹	Property taken in to Possession (As per Appendix IV read with Rule 8 (I) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)
	1. Mr. Ashok Gagubhai Chhadwa (Borrower)	25.10.2021	
	2. Mrs. Rajeshree Ashok Chhadwa (Co-Borrower) 3. Mr. Mihir Ashok Chhadwa (Co-Borrower) 4. Mr. Himanshu Ashok Chhadwa (Co-Borrower) 5. Mr. Ashok Gagubhai Chhadwa HUF (Co-Borrower) - All Having Address at : Flat No. 06, 6° Floot, Sagar Chhaya Society, S. T. Road, Chembur, Mumbai-400 77, Mf. 5, 6 & 7, Sagar Chhaya Society, S. T. Road, Chembur, Mumbai-400 077, Mf. 5	Demand Notice Dated: 20.07.2021 Loan Amount: ₹ 2,50,53,078.68 (Rs. Two Crore Fifty Lakh Fifty Three Thousand Seventy Eight & Sixty Eight Paisa Only) as on 15.07.2021	All that piece & parcel o property bearing: Floor No. 4 5, 6 & 7 Sagar Chhaya Society S. T. Road, Chembur, Mumbai 400 071, Maharashtra
	1. M/s. Sizer India (Borrower) Through Its Proprietor	23.10.2021	All that piece & parcel of
2	Mr. Saleejkumar Sreekumar - Having Address at t- Unit No. 15, Diamond Indiest No. 1, Ketkipada, Opp. Western Express Highway, Dahisar (E), Dahisar, Mumbai-4000 066, Mrt. 2. Mr. Saleejkumar Sreekumar Madampath (Co-Borrower) - Having Address at 1: Flat No. 60, 60° Floor, Shree Shubham CHSL, Prema Nagar, Boriwali (West) Mumbai-400 091; - Also at : Unit No. 15, Diamond Indiest No. 1, Ketkipada, Opp. Western Express Highway, Dahisar (East), Dahisar, Mumbai-400 006, Mrt.	Demand Notice Dated: 28.07.2021 Loan Amount: ₹ 25.80,676.55 (Rs. Twenty Five Lakh Eighty Thousand Six Hundred Seventy Six & Sixty Five Paisa Only) as on 27.07.2021	property bearing: Industrial Unit No. A/15, admeasuring 43.24 sq. mts, Ground Floor, Diamond Industrial Estate Premises CHSL, Bldg. No. A, Ketkipada Dahisar (E), Mumbai-400 068 Maharashtra.
	Discipline Enterprises Private Limited (Borrower)	26.10.2021	
3	2. Prabirkumar Bhupendranath Chakravoty (Guarantor) Both are Having Address at : Praunaj Ground Floor, Near Zenda Chowk Oharampeth, Nagpur-440 0I0, Maharashtra; * Also at : Flat No. 401, * Floor, Amar Co-op. Housing Society, Plot Noo. 07, Sector-58, Nerul- Navi Mumbai-400 706, Maharashtra Mrs. Kakan Tapankumar Majumdar (Guarantor) Mr. Tapankumar Santosh Majumdar (Guarantor) Mr. Raja Tapankumar Majumdar (Guarantor) MI Having Address at : Plot No. 29, Poonam Vihar-I, Behind Sanchayani Complex, Swalambi Nagar, Nagpur-440 022, Maharashtra, Also at : Flat No. 401, 4*9 floor, Amar Co-op. Housing Society, Plot No. 07, Sector-58, Herul, Navi Mumbai-400 706, Maharashtra.	Demand Notice Dated : 20.072021 Loan Amount : ₹ 2,20,61,021/- (Rs. Two Crore Twenty Lakhs Sixty One Thousand and Twenty One Only) as on 16.07.2021	All that piece & parcel o property bearing: Flat No. 401 4º Floor, Amar Co-op. Housing Society, Plot No. 07, Secto - 58-A, Nerul, Navi Mumbai Maharashtra-400 706.
		23.10.2021	All that piece & parcel of
4	1. Mr. Sunil Krishna Chavan (Borrower) All Having Address at : A/19, Vakratunda Devayani CHS. LTD, Chatrapati Shivaji Compound Road No. 6, Devyani Sanjkul Dahisar (East), Mumbai-400 068, MH.	Demand Notice Dated: 20.07.2021 Loan Amount: ₹ 33,30,211.48 (Rs. Thirty Three Lakh Thirty Thousand Two Hundred Eleven & Forty Eight Paisa Only) as on 20.07.2021	property bearing : A/15 Vakratunda Devayani CHS. LTD Chatrapati Shivaji Compouni Romani Sanjku Dahisar East, Mumbai-400 066 Maharashtra.

WESTERN RAILWAY INSTALLATION OF ATM ON VARIOUS RAILWAY STATIONS

Division Railway Manager (c) BCT inviting Tender No.: C4/151/ATM/2: Date: 25.10.2021 Name of Work: E-Tenders are invited from reputed bank: Public sector Bank/Scheduled Commercial Indian Bank) for installation of 22 ocations on Western Railway, Mumbai Division. For 5 years.

Sr. No.	E-Tender Notice No.& Date	Work and Location
1	C4-151-ATM-21-GTR-Vol.II dtd. 13.09.2021	On the existing flower bed area.
2	C4-151-ATM-21-bct-W8-Vol.II dtd.13.09.2021	Mumbai Central West, Near Pf No. 1, below north west booking office
3	C4-151-ATM-21-BCTMAIN (6) Vol.II dtd. 13.09.2021	East circulating area, Outside Pf No. 5, Opp Pay n Park
4	C4-151-ATM-21-DDR Vol.II dtd. 13.09.2021	Outside Platform No. 5, circulating area
5	C4-151-ATM-21-MRU- Vol.II dtd. 13.09.2021	Landing of South West FOB
6	C4-151-ATM-21-BDTS E (2) Vol.II dtd. 13.09.2021	Near wall Boundary road towards Bandra Station, circulating Parking area.
7	C4-151-ATM-21-BDTS- Vol.II dtd. 13.09.2021	Near wall Boundary opp circulating Parking area.
8.	C4-151-ATM-21-STC- Vol.II dtd. 13.09.2021	Near South east BMC bridge, Western Railway Parking circulating area.
9	C4-151-ATM-21-ADH(E)1- Vol.II dtd. 13.09.2021	At North east side near RPF Office
10	C4-151-ATM-21-ADH(E)4- Vol.II dtd. 13.09.2021	Existing site of IOB, opp east booking (old), Nearlanding of North side FOB
11	C4-151-ATM-21-BVI- Vol.II dtd. 13.09.2021	Near SSE-W Office. Opp Petrol pump at West North side
12	C4-151-ATM-21-BVI- Vol.II dtd. 13.09.2021	Near Pf No. 6, landing of BMC's bridge at South East side.
13	C4-151-ATM-21-DIC(E)1- Vol.II dtd. 13.09.2021	Behind South East entry / Exit from subway, Near East booking office, circulating area.
14	C4-151-ATM-21-DIC(W)3- Vol.II dtd. 13.09.2021	Entry Exit from South West side, Outside Pf No. 1
15	C4-151-ATM-21-MIRA- Vol.II dtd. 13.09.2021	Behind South East Booking Office
16	C4-151-ATM-21-BYRE(2)- Vol.II dtd. 13.09.2021	Outside Platform No. 6, Behind PRS Office
17	C4-151-ATM-21-PLG- Vol.II dtd. 13.09.2021	In circulating area, Behind Dy.SS Office, Opp R.C. Shah Tea Stall
18	C4-151-ATM-21-BOR- Vol.II dtd. 13.09.2021	In circulating area, Behind Booking Office, Near STD / PCO booth of Saifee.
19	C4-151-ATM-21-DRD- Vol.II dtd. 13.09.2021	In circulating area at middle side near South side colony's wall fencing.
20	C4-151-ATM-21-PBHD- Vol.II dtd. 13.09.2021	Below middle BMC-FOB, landing o north FOB
21	13.09.2021	Outside Pf No. 5, Opp Pay N Park
22	C4-151-ATM-21-VR- Vol.II dtd.	Near Rickshaw stand circulating area

13.09.2021 All above E-Tender Notice from (Sr.No. 1 to Sr.No.22) Date & Time of closing of online submission is upto 15.00 Hrs. on 25.11.2021. The Reserve Price of Sr. No. 1 to 22 is Re. 1/- and EMD Rs. 5000/- The required Documents & Tender Formare available on the Website www.ireps.gov.in. Since it is E-Tender it is to be submitted or the submitted of t

Like us: ¶ www.facebook.com/WesternRly Follow us: ☐ www.twitter.com/WesternRly

00 00

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गूमला

e-mail ID eedwsd.gumla@gmail.com

अल्पकालीन ई-प्रोक्योरमेंट निविदा आमंत्रण सूचना संख्या -09/2021-22 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड रांची

09/11/2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे से

22/11/2021 को 5.00 बजे अपराह्न तक

23/11/2021 को 5.00 बजे अपराह्न तक

24 / 11 / 2020 के पूर्वाहन 11.00 बजे से।

कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल गुमला। अधीक्षण अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता अंचल गुमला क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, प्रक्षेत्र राँची

12/11/2021 के अपराहन 12.30 बजे से अभियंता प्रमुख पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची

कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, गुमला

विभाग का नाम कार्यपालक अभियता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, गुमला

विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता

वेबसाईट पर निविदा प्रकाशन की तिथि एवं समय प्री बीड मिटिंग की तिथि समय एवं स्थान

बीड प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय

अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपन्न का मल्य

(हार्ड कॉपी में) जमा करने की तिथि, समय एवं स्थान)

निविदा खोलने की संभावित तिथि एवं समय

निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का पदनाम प्रोक्योरमेंट कार्यालय का सम्पर्क नम्बर

10. ई-प्राक्योरमेंट सेल का हेल्पलाईन नम्बर

7488491963 7488491963 11. कार्य का नाम :- Construction of Cluster wise Single Village Water Supply Scheme on Solar Energy based Mini rural pipe water supply scheme in different blocks of Gumla District which are not included in MVS/Other Schemes to supply water and house connection with 05 Years Operation nance works on "Turn-key basis" under D.W.& S. Div. Gumla for the Year 2021-22 (Head

那0	ग्रुप संख्या	ग्रामों की संख्या	C की संख्या	प्राक्कलित राषि	अग्रधन की राषि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GML/SVS Cluster/Palkot-01A	10	2219	8,28,98,000.00	8,29,000.00	10,000.00	09 Month
2	GML/SVS_Cluster/Palkot-01B	09	1285	5,41,06,000.00	5,42,000.00	10,000.00	09 Mont
3	GML/SVS_Cluster/Palkot-02A	13	1622	6,58,05,000.00	6,59,000.00	10,000.00	09 Mont
4	GML/SVS_Cluster/Palkot-02B	07	1652	5,96,21,000.00	5,97,000.00	10,000.00	09 Mont
5	GML/SVS Cluster/Palkot-03A	06	1335	5,01,01,000.00	5,02,000.00	10,000.00	09 Mont
6	GML/SVS_Cluster/Palkot-03B	05	1235	5,01,08,000.00	5,02,000.00	10,000.00	09 Mont
7	GML/SVS_Cluster/Palkot-04A	03	1731	6,37,77,000.00	6,38,000.00	10,000.00	09 Mont
8	GML/SVS_Cluster/Palkot_Kamdara- 04B	07	1786	6,71,43,000.00	6,72,000.00	10,000.00	09 Mont
9	GML/SVS Cluster/Ghaghra-05A	10	1308	5,00,68,000.00	5,01,000.00	10,000.00	. 09 Mont
10	GML/SVS_Cluster/Ghaghra_Gumla- 05B	11	1366	5,22,36,000.00	5,23,000.00	10,000.00	09 Mont
11	GML/SVS Cluster/Dumri Raidih-06A	13	1368	5,00,66,000.00	5,01,000.00	10,000.00	09 Mont
12	GML/SVS Cluster/Raidih-06B	07	1448	5,01,59,000.00	5,02,000.00	10,000.00	09 Mont
13	GML/SVS Cluster/Dumri-07A	08	1418	5,09,01,000.00	5,10,000.00	10,000.00	09 Mon
14	GML/SVS Cluster/Dumri-07B	11	1464	5,04,56,000.00	5,05,000.00	10,000.00	09 Mon
15	GML/SVS Cluster/Jari-08A	15	1312	5,14,26,000.00	5,15,000.00	10,000.00	09 Mon
16	GML/SVS Cluster/Jari-08B	14	1608	5,96,81,000.00	5,97,000.00	10,000.00	09 Mon
17	GML/SVS Cluster/Bishunpur-09A	14	1752	6,95,53,000.00	6,96,000.00	10,000.00	09 Mon
18	GML/SVS Cluster/Bishunpur-09B	11	2022	7,45,52,000.00	7,46,000.00	10,000.00	09 Mont
19	GML/SVS Cluster/Bishunpur-10A	16	1814	6,48,91,000.00	6,49,000.00	10,000.00	09 Mon
20	GML/SVS_Cluster/Bishunpur-10B	10	1834	6,53,18,000.00	6,54,000.00	10,000.00	09 Mon
21	GML/SVS_Cluster/Chainpur-11A	18	1575	5,90,77,000.00	5,91,000.00	10,000.00	09 Mon
22	GML/SVS_Cluster/Chainpur-11B	19	1867	7,28,99,000.00	7,29,000.00	10,000.00	09 Mon
23	GML/SVS_Cluster/Chainpur-12A	11	1737	6,43,99,000.00	6,44,000.00	10,000.00	09 Mon
24	GML/SVS Cluster/Chainpur-12B	16	1773	7,14,53,000.00	7,15,000.00	10,000.00	09 Mon

नोट :(1) निविदा के नियम एवं शर्तें आदि झारखण्ड सरकार के वेबसाईट http://jharkhandtenders.gov.in पर उपलब्ध है (2) प्राक्कलित राशि में परिवर्त्तन संभव है, तदनुसार अग्रधन की राशि देय होगी।

PR 255794 Drinking Water and Sanitation(21-22)D

00 00

कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, गुमला

00 00

सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेटस एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (कानुन) की घारा 13(2) के अंतर्गत सचना

अनु.	कर्जदाता (ओं) का नाम	गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण	एन.पी.ए की तारीख	बकाया राशि (रू.)
क्र.	(ए)	(बी)	(सी)	(डी)
1.	कर्ज खाता क्र. HHLRHN00351557 1. राज कुमार सिंह 2. रीता देवी 3. पंकज भसीन 4. दीपक गुप्ता 5. विनीत कुमार 6. राजेश गोयल	प्लॉट मं. 52 और 53, 3 री मंजिल (पीछे लेफ्ट हैन्ड साइड / दिशिण-पूर्वी भाग), खसरा गं. 7/ 20/1, स्लॉल-एफ, गती गं. 10, ओम विद्यार एक्सटेंशन, नई दिली, दिली – 110059	26.06.2021	रु. 15,78,604.46/- (रुपए पंद्रह लाख अठहत्तर हजार छ: सौ चार और छियालीस पैसे मात्र) 26.06.2021 के अनुसार

कि ऊपर लिखे नाम वाला उघार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के विचीय अनुशासन को बनाए एख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या र रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उघार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंम डी में विनिर्दिष्ट घनराशि बकाया बनी हुई है।

रख जान वाल खाता छ अनुसार प्रत्येय जया तथा नाम हाता है। अगान काम रामा जा गामान्य दमाराव क्यावा का वाल है। काम लेने बाले (लॉ) की ओर से क्या धनरायि का पुनर्पुताता में लगातार चूक होने के कारण वचार लेने वाले (लॉ) के क्या खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदं के भीतर निष्पादनेतर परिसंपरियों (स्तंप सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उचार लेने वाले को अधिनियमन वें

घारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है। अपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अधदान व्याज, लागते, तथा शुरूकों सहित ऊपर स्तंभ औ में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का गुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्यों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उहिलिखत बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, "कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविचा या निजी समझौते द्वारा सुरवित आस्तियों की बिक्री के लिए सुचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड केडिटर द्वारा किए गए सभी खर्ची, लागदों और प्रमार्थ के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह मी ध्यान दें कि उपनेक विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरवित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल एवंच पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता"।

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना

घारा 13(2) घारा 13(2)

सूचना सूचना के अनुसा दिनांक वकाया राशि

| | [ए-56|
आपको एतद् द्वारा आईडीएफसी फर्स्ट बँक लिमिटेड (तत्कालीन कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बँक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बँक लिमिटेड के रूप से ज्ञात) को उपरोक्त तालिका में उनके संबंधित दिनांकों और अन्य नामतों, युल्कों आदि से अनुबंधित दर के साथ दिखाया गए विवरण, राशि का मुगतान करने के लिए कहा जाता है, युक होने पर अहस्ताबरित को सरफैसी अधिनियम की चारा 13(4) और घारा 14 के तहत, आईडीएफसी फर्स्ट बँक लिमिटेड (तत्कालीन कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बँक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स केंक्र लिमिटेड के रूप से ज्ञात) को उपरा उल्लेखित बंधक संपत्तियों के खिलाफ बकाया शारी की वस्त्री करने के लिए, वर्तवाई शुरू करने के लिए विवार कि जाएगा। इसके अलावा आपको उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत उक्त प्रत्यानृत परिसंपियों को बिक्री/पट्टे या अन्यथा के माध्यम से स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है।

11,37,624.26

पुराक्षा आपारिका नाम किया है। अपारिकार के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिकी, पूर्व के माध्यम से अन्यधा नोटिस में उदिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों से कोई मी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं।

स्थानः दिली/गुरुग्राम (हरियाणा)/धनबाद (झारखंड)

खाता सं.

दिनांक : 29.10.202 : स्थान : दिल्ली एनसीआर

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

उधारकर्ता और

सह–उधारकर्ता

का नाम

1. योगेश सिंह रावत

2. नीलम पृथ्वीसिंह

रावरत

दुरभाषा : +91 44 4564 4000 । फैक्स : +91 44 4564 4022

(तकातीन केपिटन कर्र्स तिपिटेंढ, आईडीएक्सी बैंक तिपिटेंड के साथ समानंतित और वर्तमान में आईडीएक्सी कर्स्ट बैंक तिपिटेंड के रूप से झात) CIN : L65110TN2014PLC097792 पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टावर्स, 6वीं मंजिल, हैरिगटन रोड़, चेतपेट, चेन्नई–600031

इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के वि प्राधिकृत अधिकारी

फ्लैंट सं. एफ एफ 01, प्रथम तल (आरएचएस–सामने की ओर बिना छत अधिकारों.

्रिजार्ट्यर्स-सामन का ओर बिना छत्त आवकारा, म्हाट सं. ए-61, गंगा विहार पर स्थित, माम-सादुल्लाबाद, गाजियाबाद, उ.प्र.– 201102, फ्लैट मापक 46.45 वर्ग मीटर का

राण्या स्वाप्ति वर्षा वर्षा वर्षा पार्ट्स के स्वर्धिया पार्ट्स के संपूर्ण व सर्वांगीण माग और सीमांकन इस प्रकार : उत्तर : प्लॉट सं. ए–62, दक्षिण : प्लॉट सं. ए–60, पूर्व : 30 फुट चोड़ी सड़क, पश्चिम : प्लॉट सं.

IDFC FIRST

सिक्यारिटाइजशन एंड रिकन्स्ट्रवशन आफ फायनाशयल असत्स एंड एन्फासमट आफ सिक्यारिटा इंटरस्ट एक्ट, 2002 (कानून) की घारा 13(2) के अंतर्गत सूचना						
अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रू.) (डी)		
1.	कर्ज खाता क्र. HHLJAL00146084 1. गौरव चनाना 2. सिल्की बब्बर 3. राकेश बब्बर	यूनिट नं. 1854, गंगा में 18वीं, एमआरईपीएल- महगुन पुरम, एनएच-24, महरौली, गाजियाबाद-201001, उत्तर प्रदेश	20.09.2021	रु. 10,96,261.41/- (रूपए दस लाख छियानवे हजार दो सौ एकसठ और इकतालीस पैसे मात्र) 20.09.2021 के अनुसा		

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उघार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट घनराशि बकाया बनी हुई है।

उधार लेने वाले(लॉ) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्मुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लॉ) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंम सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उघार लेने वाले को अघिनियमन र्व धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्दवारा ऊपर लिखे नाम वाले उघार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि, ये इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के मीतर अद्यतन ब्याज, लागते, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंप डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का पुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंप बी में उत्तिखित बंघक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी। कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की घारा 13 की उप-घारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्ची, लागतों और प्रमारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर

सरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता''। सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13(2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उलिखित अपनी सुरक्षित संपंचियों र से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं।

स्थानः गाजियाबाद/नोएडा/दिली/अमृतसर (पंजाब)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

उघार

चाहत एव चंद्रा प्रक शिखा श खाता सं 19102 और

19102

सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेटस एंड एन्फोसॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (कानून) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रू.) (डी)
1.	कर्ज खाता क्र. HHLRHN00238791 1. कपिल बजाज 2. शम्मा बजाज 3. परवीन	पलैट नं. – 608, 6 वीं मंजिल, लिबर्टे टॉवर, ओमेक्स नॉर्थ एवेन्यू, गांव संखोल और बहादुरगढ़, सेक्टर – 15, जिला–झज़र, बहादुरगढ़, हरियाणा– 124510	25.06.2021	रू. 35,68,903.29/- (रूपए पैंतीस लाख अङ्सठ हजार नौ सौ तीन और उनतीस पैसे मात्र) 25.06.2021 के अनुसार
2.	कर्ज खाता क्र. HHLGUG00099820 1. सोहन सिंह गुलिया (एसएस गुलिया एसोसिएट्स के मालिक) 2. कविता	बुनिट नं. सी 154, 15वीं मंजिल, टावर/ब्लॉक नं. सी, इंडियाबुल्स एनिम्मा, पावला खुसरूपुर गांद, गुरुग्राम तहसील और जिला गुरुग्राम, सेक्टर 110, गुरुग्राम–122017, हरियाणा 2 कार पार्किंग स्थानों पर वकी हुई कार पार्किंग के साथ	31.08.2021	रू. 46,27,511.44/- (रूपए छियालीस लाख सत्ताईस हजार पांच सौ ग्यारह और चव्यालीस पैसे मात्र) 31.08.2021 के अनुसार

के ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उघार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट घनराशि बकाया बनी हुईं है ।

घार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उघार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडों के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की घारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्दवारा ऊपर लिखे नाम वाले उघार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि, वे इस सचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागते, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंघक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की घारा 13 की उप-घारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, . सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्ची, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयाविध के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता''।

सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13(2) के प्रावधान के संदर्म में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपिचयों न से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं।

स्थानः दिल्ली/गुरुग्राम/बहादुरगढ्/झऊर

इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

₹-56

प्राधकृत आध आईडीएफसी फर्स्ट बँक लिगि (तत्कालीन कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बँक लिमिटेड के साथ समार्ग और वर्तमान में आईडीएफसी कर्स्ट बँक लिमिटेड के रूप से झ

		(कानून) की धारा 13(2) के अंत		2.1.
अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रू.) (डी)
1.	कर्ज खाता क्र. HHLVAS00359694 1. अशोक कुमार महाराणा 2. जाह्नबी सुतारी	पलैट मं. एक एफ-1, एम.आई.जी., 1 ली मंजिल, प्लॉट मं. एफ-38, एस.एल.एफ. वेद विहार, हड़बस्त गांव लोनी, परगना और तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद-201001, उत्तर प्रदेश	15.09.2021	रू. 21,44,389.48/- (रूपए इक्कीस लाख चव्यालीस हजार तीन सौ नवासी और अड़तालीस पैसे मात्र) 15.09.2021 के अनुसा
2.	कर्ज खाता क्र. HHLVAS00256007 1. कुमार देवेंद्र 2. सरिता देवी	पूरी 1 ली मंजिल, प्लॉट नं. III – एफ/ 368, सेक्टर–III एफ, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 200111	28.06.2021	रु. 14,12,407.62/- (रुपए चौदह लाख बारा हजार चार सौ सात और बासठ पैसे मात्र) 28.06.2021 के अनुसार
3.	कर्ज खाता क्र. HLAPNOI00270908 1. विनोद कुमार 2. प्रीति	युनिट नं. 151, अपर ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक- एसबी, जयपुरिया सनराङ्ग प्लाजा, प्लॉट नं. 12ए, अर्हिसा खंड-1, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201009	17.09.2021	रू. 21,00,342.41/- (रुपए इक्षीस लाख तीन सौ बयाली और इकतालीस पैसे मात्र) 17.09.2021 के अनुसार
4.	कर्ज खाता क्र. HHLNOI00455432 1. अनिल कुमार 2. सीमा रानी 3. रेणु खेड़ा	फ्लैट मं. – 17 1, डीडीए एलआईजी फ्लैट, ब्लॉक –ए 1, लॉरेंस रोड, केशव पुरम, नई दिली, दिली – 110035	15.09.2021	रु. 41,42,627.87/- (रुपए इकतालीस लाख बयालीस हजार छ: सौ सत्ताईस और सतासी पैसे मात्र) 15.09.2021 के अनुसार
5.	कर्ज खाता क्र. HHLNOI00285096 1. राजेश कुमार 2. आशा	फ्लैट नं.– यूजी 3, अपर प्राचंड फ्लोर, रियर साइड, प्लॉट नं. एफ 24, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201102	15.09.2021	रु. 17,24,101.63/- (रुपए सत्रह लाख घौबीस हजार एक सौ एक और तिरसठ पैसे मात्र) 15.09.2021 के अनुसार
6.	कर्ज खाता क्र. HHLNOD00297467 1. मधु 2. चेन पाल 3. अशोक कुमार 4. राम अवतार गर्ग	पलैट नं. – यूजीएफ ३, बैक साइड राइट हैन्ड, एलआईजी, प्लॉट नं. बी 1/48, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन ॥, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201005	10.09.2021	रु. 16,40,087.41/- (रुपए मोलह लाख चालीस हजार सतासी और इकतालीस पैसे मात्र) 10.09.2021 के अनुसार
7.	कर्ज खाता क्र. HODMAT00410699 1. उषा जैन 2. सुनीत जैन 3. कीर्ति जैन	प्लॉट नं. २९४, खसरा नं. २२८ केए, मौजा पालीखेड़ा, नरसी विहार सिटी कॉलोनी के अंदर, मथुरा- २८११००१, उत्तर प्रदेश	26.06.2021	रू. 19,91,833.74/- (रूपए उन्नीस लाख इक्यानवे हजार आठ सौ तैंतीस और चौहत्तर पैसे मा 26.06.2021 के अनुसार
8.	कर्ज खाता क्र. HLAPMAT00313803 1. मोहम्मद वसीम 2. मोहम्मद यूनिस 3. मोहम्मद मोसिन	आवासीय संपति प्लॉट नं. 40, खसरा नं. 3759 और चौक नं. 81, नवनीत नगर, मौजा मथुरा बांगर में स्थित, कनकती मंदिर के पास, भूतेश्वर, मथुरा- 281001, उत्तर प्रदेश	26.06.2021	रू. 15,19,055.12/- (रूपए पंद्रह लाख उन्नीस हजार पचपन और बारह पैसे मात्र) 26.06.2021 के अनुसार
9.	कर्ज खाता क्र. HHLMAT00176229 1. सुनीत जैन 2. कीर्ति जैन	प्लॉट नं. 294, मौजा पालीखेड़ा, एंब्रोन नरसी विहार कॉलोनी, मथुरा और तेश और जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश – 281001	28.06.2021	रू. 13,22,031.11/- (रूपए तेरह लाख बाईस हजार इकतीस और ग्यारह पैसे मात्र) 28.06.2021 के अनुसार
10.	कर्ज खाता क्र. HHLMAT00425834 1. मनोज कुमार 2. वंदना	प्लॉट नं. 10, राघा एन्क्लेव कॉलोनी, मौजा महोली, खसरा नं. 308 (पुराना), खसरा नं. 234 (नया), तहसील और जिला मथुरा,	26.06.2021	रू. 14,40,862.33/- (रूपए चौदह लाख चालीस हजार आठ सौ बासठ और तैंतीस पैसे माः

मथुरा, उत्तर प्रदेश – 281001 कि ऊपर लिखे नाम वाला उद्यार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आ बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है। उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पूनर्भगतान में लगातार चुक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित

नापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उघार लेने वाले को

26.06.2021 के अनुसार

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्दवारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से ६० दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागते, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंग डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का गुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंघक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए . गए सभी खर्ची, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित

सरफेसी अधिनियमन की उपघारा 13(2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपर्न सुरक्षित संपत्तियों में से कोई मी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से

स्थानः गाजियाबाद/दिल्ली/मथुरा

इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए प्राधिकृत अधिकारी

CAPITAL PROTECTING INVESTING FINANCE ADVISING

आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रेयान कम्पाउंड, वीरावल, गुजरात-362266

शाखा कार्यालय : चौथा तल, रकायपॉर्क, जी.ई. रोड़ रे लगा हुआ, रवि नगर, रानी सती मंदिर के सामने, रायपुर-492001 मांग सूचना धारा 13(2) के तहत

आप निगम उल्लेखित उचारकर्ता ने वर्णित अनुसूची में उल्लेखित संपत्ति को बंघक रखकर, ऋण तिया है और आप निम्न वर्णित ऋण समझौते के तहत उचारकर्ता/ सह-उचारकर्ता/ गारंटर के रूप में मीजूद हैं आपके द्वारा किए गए बकायेदारों के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को वित्तीय परिसंपतियों के प्रतिमूत्तिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिमूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संक्षेप में सर्फसी अधिनियम) के प्रावचानों के तहत गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में सर्फसी अधिनियम) के प्रावचानों के तहत गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में सर्फसी अधिनियम के प्रावचानों के तहत गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में सर्गिक किया गया है। हम आदित्य विरुद्ध सर्वारा संपत्ति के रूप में सर्गिक किया गया है। हम आदित्य विरुद्ध सर्वारा का आपको भेजी गई स्वना वापस प्राप्त होती हैं और असेवित वापस आ जाती हैं। उक्त सु चनाओं की विषयवस्तु यह है कि आपके गार्टीकृत विभिन्न ऋणों के मुगतान में आपने कुक की थी। इसिलए, वर्तमान, प्रकाशन को सर्पर्स सी अधिनियम की घारा 13(2) के प्रावचान और प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3(1) के प्रावचान के सर्वर्म में सुचना के रूप में प्रकारित किया गया है:

क प्रावधान क सदम म सूचना क रूप म प्रकाशित किया गया ह :			
ऋण खाता संख्या/खाता, उधारकर्ता(ऑ) और गारंटर(रॉ) के नाम और पता	प्रवर्तित होने वाली प्रतिभूति का विवरण	मांग सूचना की दिनांक	मांग सूचना अनुसार बकाया राशि
प्रोडक्ट – संपत्ति के विरुद्ध आण अपण वाता संख्या ABFLNDLAP00000601443 और ABFLNDLAP00000108806 और 1. शिव इंजीनियरिंग सर्विसेस, मातिक के माध्यम से, मूतल, बसई गरही रोड, सेक्टर-70, नोएडा, जरर प्रदेश-201301 इसके अतावाः पर्केट सं 08, मृतल, ब्लॉक बी, अलकनंदा अपार्टमेंट, सेक्टर-7, सामपुरी, गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश-20111 2. श्री देकेन्द्र बशिव, (श्री देकेन्द्र वशिव के माम से मी झात) मृतल, बसई मरही रोड, सेक्टर-70, नोएडा, जरर प्रदेश-201301 इसके अलावाः फर्वट सं 08, मृतल, ब्लॉक बी, अलकनंदा अपार्टमेंट, सेक्टर-7, रामपुरी, गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश-20131 3. श्रीमती रजनी बशिष्ठ, मृतल, बसई गरही रोड, सेक्टर-70, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 इसके अलावाः पर्लट सं 08, मृतल, ब्लॉक बी, अलकनंदा अपार्टमेंट, सेक्टर-7, रामपुरी, गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश-20111 4. श्री मीतिल बशिष्ठ, मृतल, बसई गरही रोड, सेक्टर-70, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 इसके अलावाः पर्लट सं 08, मृतल, ब्लॉक बी, अलकनंदा अपार्टमेंट, सेक्टर-7, रामपुरी, गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश-20111 4. श्री मीतिल बशिष्ठ, मृतल, बसई गरही रोड, सेक्टर-70, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 इसके अलावाः पर्लट सं 08, मृतल, ब्लॉक बी, अलकनंदा अपार्टमेंट, सेक्टर-7, रामपुरी, गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश-20111	संपत्ति घारक सं. का संपूर्ण व सर्वागीण भाग : ''फ्लेट सं.08, भूतल, व्लॉक बी, अलकनवा अपार्टमेंट, सेक्टर-7, रामपुरी, गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश-201011''	दिनांक 21 अक्टूबर 2021	रुपये 55,08,337/— (रुपये पचपन लाख आठ हजार तीन से सैतीस मात्र) बकाया मूलधन के माध्यम से, बकाया (अर्जित वितंब शुल्क सहित) और ब्याज दिनांक 11.10.2021 तक

आपको एतद् द्वारा आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड क इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 60 दिनों की अविष के मीतर उपरांक राशि ब्याज और लागत के साथ मुगतान करने के लिए कहा जाता है असफल होने पर आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड उघारकर्ताओं, बंघककर्ताओं और गाएंटरों की प्रत्यामृत परिसंपरियों का कब्जा लेने सहित समी या किसी एक या अधिक पर प्रत्यामृत परिसंपरियों के विरुद्ध का अधिनियम के प्रावचानों के तहत आवश्यक कार्रवाई करेगा। उक्त अधिनयम के प्रावचानों के तहत आवश्यक कार्रवाई करेगा। उक्त अधिनयम के प्रावचानों के तहत आवश्यक कार्रवाई करेगा। उक्त अधिनयम के प्रावचानों के तहत आवश्यक कार्रवाई करेगा। उक्त अधिनयम के प्रतिक्व बिरात कार्यक्रि का प्रत्यामृत परिसंपरियों को निस्तार करने के लिए बिक्री का अभिक्तरांकन (2) प्रत्यामृत परिसंपरियों को निस्तार करने के लिए बिक्री का अभिक्तरांकन (2) प्रत्यामृत परिसंपरियों के वस्तु करना और आदित्य बिरता फाइनेंस लिमिटेड हार प्रत्यामृत परिसंपरियों के क्ता में किसी गी हस्तांतरण को स्थानांतित किए गए सभी अधिकारों और संबंधों में निहित होगा क्योंकि यह हस्तांतरण आपके द्वारा किया गया है। उक्त अधिनियम की घारा 13(13) के प्रावचानों के संवर्भ में, आपको एतद् द्वारा या तो विक्री, पट्टे या अन्यथा (आपके व्यवसाय के सामान्य प्रकार के अलावा), किसी भी प्रत्यामृत संपत्ति को उपर संवर्धी में अरिकार होगा क्यों के स्वान करने से प्रति का अधिनियम की घारा 13(13) के प्रावचानों के संवर्भ में अपकार संवर्ध में निहित होगा क्यों प्रवच्या के सामान्य प्रकार के अलावा), किसी भी प्रत्यामृत संपत्ति को उपर संवर्धित और आदित्य बिरता हाउसी मान्यामृत संपत्ति के उपर संवर्धित और आदित्य बिरता हाउसी मान्यामृत संपत्ति करने से प्रतिवर्ध विच्या जाता है। से प्रतिबंधित किया जाता है।

प्राधिकृत अधिकार द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक : 29/10/2021 आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड

CIN: L33301DL1988PLC033434

पंजीकृत कार्यालयः ई-10, लोअर ग्राउंड फ्लोर, लाजपत नगर-III, नई दिल्ली-110024 दूरमाषः 91-120-4741300, ईमेलः investor.relations@timex.com, वेबसाइटः www.timexindia.com 30 सितम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए अलेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त ब्यौरा

30 सितम्बर 2021 30 सितम्बर 202 30 सितम्बर 2020 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त छमाही को समाप्त तिमाही को समाप्त छमाही को समाप्त तिमाही (लेखा परीक्षित) (अलेखा परीक्षित) (अलेखा परीक्षित) (अलेखा परीक्षित) 8799 अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट तथा/अथवा असाधारण मद से पहले) 1135 -357 607 कर पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (विशिष्ट तथा/अथवा असाधारण मद के उपरांत) 1135 -357 -1599 रोपरांत अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) 1135 607 -357 -1599 विशिष्ट तथा/अथवा असाधारण मद के उपरांत) अवधि के लिए कुल परिपूर्ण आय [अवधि के लिए (करोपरांत) लाभ/(हानि) तथा -352 1142 604 -1604न्य विस्तृत आय (करोपरांत) सम्मिलित] क्विटी शेयर पूंजी अछले वर्ष के लेखा परीक्षित तुलन पत्र में उल्लेखित गरिक्षत निधि (पुनर्मृल्यांकन आरक्षित निधि छोड़कर) 1010 1010 1010 1010

प्रति शेयर उपार्जन (रु. 1 प्रत्येक) बेसिक एवं डाईलूटेड वार्षिक लेखा नहीं

स्थानः नोएडा

तारीखः 27 अक्टूबर, 2021

0.98

0.25

-0.57

अमाकुत किया गया ह। कपर उस्लेखित वित्तीय परिणाम सेबी (सूबीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अधीन बीएसई लिमिटेड के पास दाय 30 सितम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का निष्कर्ष है। 30 सितम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही एवं छमाही वे वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण स्वरूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) तथा कंपनी की वेबसाइट (www.timexindia.com) पर भी उपलब्ध है निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से टाइमेक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड

प्रबंध निदेशव डीआईएनः 00893750

-2.01

ऋण वसूली न्य्याधिकरण ८००/ 1 यूनिवर्सिटी शह, हनुमान सेतु मंदिर केपास, लखनज-22६ (क्षेत्राधिकार का क्षेत्र – जवर प्रदेश का हिस्सा) प्रकाशन द्वारा उपस्थिति और जर दाखिल करने के लिए सम्मन

को.ए. सं. 2019 का 593 (बैंक और विसीय संस्थानों अधिनियम, 1993 की घारा 19(3) के सह पवित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिय नियम, 1993) के नियमों 12 और 13 के तहत प्रतिवादी को सम्मन

का सिंह पुत्री अशोक कुमार, सी–1/54 डीएल साहिबाबाद एस–1 गाजिर के अलावा : प्रियंका सिंह पुत्री अशोक कुमार हवीं पॉलिमर्स प्लॉट सं. 37 पॉकेट

Fullerton FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LIMITED and india कॉमॉरेट कार्यालय : सुप्रीम बिजनेस मॉर्क, तल 5 और 6, बी बिंग, पुवाई, मुंबई 400 076 कॉर्पोरेट कार्यालय : सुप्रीम बिजनरा भाग्न, सांग सूचना

विशोध परिसंपितयों के प्रतिगृतिकारण पर्य धार्मितमण और प्रतिगृति दिन के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनेयम") और प्रतिगृति दिन के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनेयम") और प्रतिगृति दिन (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियमन") के प्रायमानों के तहत अधिनेयम ') अंतर प्रतिगृति दिन (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियमन") के प्रति प्रतिगृति दिन के प्रति अधिनेयम के प्रति अधिनेयम के प्रति प्रति अधिनेयम के प्रति प्रति अधिनेयम के प्

मांग सूचना दिनांक	अचल संपत्ति/बंधक संपत्तियों का विवरण
सशि 14/10/2021 ए. 26,77,157/- 14.10.2021 तक	एमआईजी मकान सं. 149, पूतल पर, मापक 106.30 वर्ग मीटर, जिसका कर्यं क्षेत्र 82.22 वर्ग मीटर और बाकि खुला क्षेत्र स्थित ताजनगरी योजना केज-1, ताजहंज वार्ढ, तहसील और जिला आगरा जवर प्रवेश, 282001, पूर्व- 9 मीटर बीज़ सरता, परियम- पार्क, जस- एमआईजी मकान, सं. 147, व्हिण- एमआईजी मकान सं. 151
	पशि 14/10/2021 रु. 26,77,157/-

प्रविद्धा वा वाचारकर्ता(ओं) को मांग सूचना का अनुपालन करने और इस प्रकाशन कि दिनांक से 60 दिनों के मौतर उसमें उनलेखिय गोग पाशि का गुपालन करने की सालाइ दी जाती है, जिसमें गुपालन की बस्तुली की प्राप्ति के प्रमुपालन करने की सालाइ दी जाती है, जिसमें गुपालन की बस्तुली की प्राप्ति की दिनांक सक लागू ब्याज, अजिरिक ब्याज, बार्जय शुरूक, लागत और व्याय शामिल ही उच्चारकर्ता(ओं) को यह जानकारी होनी चाहिए कि एकआईसीसीएल एक प्रत्यमुद्ध अज्ञावता है और उच्चारकर्ता(ओं) मांत्र अपने विचार प्रमुख्त अवल्या स्थापित हो उच्चारकर्ता(ओं) मांत्र अपने वेच्चारकर्ता होता प्राप्त अपने वेच्चारकर्ता होता प्राप्त स्थापित स्थापित के प्रविद्ध एक प्रत्यमुद्ध अज्ञावता है और उच्चारकर्ता(ओं) मांत्र अपनी वेच्चारकर्ता व्याप्त करने वेच्चारकर्ता होता प्राप्त करने के स्थाप के स्थाप करने के प्राप्त प्रविद्ध के स्थाप के स्थाप करने के प्राप्त प्रमुख्त के स्थाप के स्थाप के स्थाप वर्ष के स्थाप वर्ष के स्थाप वर्ष के स्थाप करने के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप करने के स्थाप के स्थाप करने के स्थाप के स्थाप करने के स्थाप के स्थाप के स्थाप करने करने के स्थाप करने के स्थाप करने के स्थाप अध्याप स्थाप के स्थाप करने के स्थाप करने के स्थाप करने के स्थाप अध्याप स्थाप के स्थाप करने के स्थाप के स्थाप के स्थाप करने के स्थाप करने के स्थाप करने के स्थाप करने के स्थाप के स्थाप करने के स्थाप करने के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप करने स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप करने के स्थाप के स

फुलर्टन इंडिया क्रेडिट दिनांक : 29.10.2021 स्थान : आगरा उ.प्र.

	उघारकर्ताओं का नाम	मांग सूचना दिनांक	अचल संपत्ति/बंधक संपत्तियों का विवरण
	अरूण वॉच सेंटर अरूण कुमार रमेश चंद्रा संगीता चंद खाता संख्या: 173001110402886, 173001310718282, 173001310425801, 173001310718199, 173003910455046	पशि 05-10-2021 रू. 90,67,504/- 14,09,2021 तक	प्रत्याभूत संपत्ति 1: अचल संपत्ति भूतल बिन् छत अधिकारों और संपत्ति सं. डी-23 व जत्तरी ओर एक स्कूटर पाकिंग संग पूर्वी भा की ओर साझा कार पाकिंग,प्लॉट सं.23 खसरा सं. 779/484 का भाग, प्रा सिकदरपुर में स्थित ज्योति नगर की आवा में, शाहदरा, दिल्ली-110093 का संपू व सर्वागीण भाग। प्रत्याभूत संपत्ति 2: मकान सं. 114 मापक क्षेत्र 81 वर्ग गज, ग्राम लोनी परगन्तीनी में स्थित, तहसील लोनी जित गाजियाबाद-उ.प्र.
	उसमानी सीजन्स कलेक्शन्स मोहम्मद असलम असमां बानो खाता संख्या : 173001310352301	च. 1,28,32,011/- 18.10.2021 तक	एक्सटेंशन भाग – 2 पर स्थित, नई दिल्ली। प्रत्याभूत संपवि 2: भूतल घारक निजी र जी–29 और जी – 30, जिस्ताक कुल मापक 20,0664 वर्ग मीटर, संपवि सं.डी–15, न दिल्ली साउथ एक्सटेंशन भाग –॥ पर स्थित, न दिल्ली
	ब्राईट होम्स संगीता बत्रा संजीव बत्रा प्रीति चीहान जितंद्र सिंह खाता संख्या: 173001310402885, 173021310595548	19-10-2021 衰. 64,27,582/- 09.10.2021 तक	प्रत्याभृत संपंति 1: भूतल बिना छत अधिका फ्रिहोल्ड संपंति बारक सं. 5 13 पर निर्मित, लां संसी, भूमि मापक क्षेत्र 160 वर्ग मीटर प निर्मित, विकासपुरी दिल्ली पर स्थिद दिल्ली–110018 प्रत्याभृत संपंति 2: एसएफएस फ्लैट सं. 25 र्ड तीसरा तत, ब्लॉक-डीजी–II, विकासपुर दिल्ली 110018

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड

दिनांक : 29.10.2021 स्थान : दिल्ली एनसीआर



https://punjabandsindbank.co.in/ module/tenderlist तथा https://psb.eproc.in/ProductPSB/public Dash पर निविदा का अवलोकन करें। सहायक महाप्रबंधक (सा.प्र.)

Œ			
एचबी एस्टेट डवलपर्स लिमिटे			
CIN: L99999HR1994PLC034146			
पंजी. कार्या. : प्लॉट नं. 31, एशलॉन इंस्टिट्यूश-			
एरिया, सैक्टर-32, गुरूग्राम-122001, हरियाणा			
फोन: + 91-124-4675500,			
फैक्स नं. : + 91-124-4370985			
ई-मेल : corporate@hbestate.com,			
वेबसाइट : www.hbestate.com			

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के शेयरधारक कुसुम लता गर्ग ने अनुरोध किया ! कि मूल शेयर प्रमाणपत्र सं. 517054 विशिष्ट स

कि मूल शेवर प्रमाणपत्र से 51705व विराट से 52175073 से 52175122 जो कि खो गए/गुम हं गए उनके स्थान पर रू. 10/— प्रत्येक के 50 इविचटी शेवरों हेतु डुप्लीकेट शेवर प्रमाणपत्र

जारा कए जाए। यदि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर कोई आपतित प्राप्त नहीं होती है तो कम्पनी उपरोक्त नामक शेयरधारक के पक्ष में बुस्तीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने हेंबु कार्यवाड़ी करेगी।

कृते एचबी एस्टेट डवलपर्स लिमिटेर हस्ता./

राधिका खुरान (कम्पनी सचिव स्थान : गुरूग्राम